

यदि आप नो किसी धोखाधड़ी के कारण  
पैसे गंवाए हैं तो संपर्क करें:

1. EPS के साथ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के  
लिए: ऐडमंटन पुलिस सर्विस  
780-423-4567
2. कैंनेडा की नमिन क्रेडिट जांच एजेंसियों के  
साथ, उन्हें सूचित करने के लिए कआपकी  
नर्जी जानकारी के साथ छेड़छाड़ हुई है:  
इक्विफिक्स – 1-800-465-7166  
ट्रांस यूनियन – 1-800-663-9980

यदि आपने पैसे **नहीं** गवांए हैं पर आपको शक है  
कआपको नशाना बनाया गया है तो  
कैंनेडियन एंटी-फ्रॉड सेंटर के साथ  
1-888-495-8501 या  
[www.antifraudcentre-centreantifraude.ca](http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca) पर  
संपर्क करें।

यह जांच करने के लिए कजानकारी के लिए अनुरोध  
सचमुच ऐडमंटन पुलिस सर्विस से ही है,  
780-423-4567 पर कॉल करें।



**धोखाधड़ी की  
रोकथांम:**


**धोखाधड़ी, फिशिंग तथा पहचान  
की चोरी से बचने के लिए कुछ  
सुझाव**



EDMONTON  
**POLICE**  
SERVICE

780-423-4567

EDMONTON  
**POLICE**  
SERVICE



इस बात की संभावना हो सकती है कि कुछ धोखेबाज लोग आपके साथ या आपके परिवार के साथ पुलिस अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों का रूप धर कर संपर्क करें और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करें। वे आपके साथ वभिन्न प्रकार से संपर्क कर सकते हैं जिनमें फ़ोन, ईमेल, टैक्सट तथा सोशल मीडिया शामिल हैं। यह लोग आपकी भाषा भी बोल सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि यह कॉल सचमुच पुलिस से या किसी अन्य सरकारी फ़ोन से आयी है।

आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी सरकारी संस्थाएं, जैसे इमीग्रेशन, रफ़्यूजी एंड सट्टिज़नशनप कौनेडा, कौनेडा रैवेन्यू ऐजेंसी (CRA), ऐडमंटन पुलिस सर्विस (EPS), रॉयल कौनेडयिन माउंटेड पुलिस (RCMP) तथा अन्य पुलिस ऐजेंसियां:

- > कोई भुगतान न करने की स्थिति में देश से निकालने या परिवार के सदस्यों को गरिफ्तार करने की धमकी नहीं देतीं,
- > फ़ोन पर, ईमेल द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा टैक्सों अथवा जुर्मानों के फ़ौरन भुगतान की मांग नहीं करतीं; और
- > बटि-कॉइन, गफ़िट कार्ड, ईमेल या मनी ट्रांसफ़र को भुगतान का वैध रूप स्वीकार नहीं करतीं।

फ़ोन पर, ईमेल, टैक्सट या सोशल मीडिया द्वारा किसी को नज्दी अथवा बैंकिंग जानकारी न दें। धोखेबाज लोगों को यह जानकारी देने से आपको पैसे का नुकसान या आपकी पहचान की चोरी हो सकती है।